



# NIMBUS PROJECTS LIMITED

(formerly known as NCJ International Limited)  
(An ISO 9001 : 2008 Certified Company)

CIN : L74899DL1993PLC055470

ENTERPRISE  
REAL  
ESTATE

NPL/BSE/19/2020-21

July 21, 2020

The Manager  
Department of Corporate Relationship  
BSE Limited  
Phiroze Jeejeebhoy Tower  
Dalal Street, Mumbai - 400 001

**Scrip Code: 511714**  
**Scrip ID: NIMBSPROJ**

**SUB: Regulation 47(1)(b) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015**

Pursuant to Regulation 30 read with regulation 47(1)(b) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith the copies of newspaper clippings the Audited Financial Results (Standalone & Consolidated) of the Company for the quarter and year ended March 31, 2020, as published in the following newspapers on July 21, 2020:

- (i) Financial Express dated 21.07.2020 (English Daily)
- (ii) Jansatta dated 21.07.2020 (Hindi Daily)

The above Audited Financial Results is also uploaded on the Company's website i.e. [www.nimbusprojectsltd.com](http://www.nimbusprojectsltd.com)

Kindly take the same on records and acknowledge receipt of the same.

Thanking You,  
Yours faithfully,

**For Nimbus Projects Limited**

Sahil Agarwal  
Company Secretary & Compliance Officer  
Mem No.: A36817



Encl. as above

# सूचकांक में 398.85 अंक और निफ्टी में 120.50 अंक की बढ़त

मुंबई, 20 जुलाई (भाषा)।

कोविड-19 के बढ़ते मामलों से निवेशकों पर बने दबाव के बावजूद शेयर बाजार सोमवार को लगातार चौथे दिन बढ़त के साथ बंद हुए। वित्तीय और सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियों के शेयरों को मिले समर्थन के कारण सूचकांक 399 अंक बढ़कर 37,419 अंक पर बंद हुआ। निफ्टी भी 11,000 अंक से ऊपर रहा।

शेयर बाजारों की शुरुआत सकात्मक रुख के साथ हुई। दिन में कारोबार के दौरान बवंर्ध शेयर बाजार का सूचकांक ऊपर में 37,479 अंक तक गया था। बाद में यह 398.85 अंक यानी 1.08 फीसद की बढ़त के साथ 37,418.99 अंक पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 120.50 अंक यानी 1.11 फीसद बढ़कर 11,022.20 अंक पर बंद हुआ। पिछले चार सत्र के कारोबार में सूचकांक 1,355.93 अंक और

निफ्टी 414.85 अंक बढ़ गया।

सूचकांक में शामिल बजाज फाइनेंस सबसे अधिक लाभ में रहा। इसके शेयर में 4.23 फीसद तक की बढ़त रही। इसके बजाज फिनसर्व, एचसीएल टेक्नोलॉजी, टेक महेंद्रा, इन्फोसिस, एचडीएफसी बैंक और आइसीआईसीआई बैंक के शेयर लाभ में रहे। बाजार में तेजी का रुख कायम करने में सबसे बड़ी भागीदारी एचडीएफसी बैंक की रही। निजी क्षेत्र के देश के सबसे बड़े बैंक ने पिछले हफ्ते ही अपना परिणाम घोषित किया जिसका असर आज बाजार पर दिखा। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में बैंक का एकल शुद्ध लाभ करीब 20 फीसद बढ़कर 6,658.62 करोड़ रुपए रहा है।

दूसरी तरफ माफ़ि सुजुकी, सन फार्मा, एनटीपीसी और एलएंडटी नुकसान में रहे। इनके शेयर 3.86 फीसद तक गिर गए। विशेषज्ञों के मुताबिक रुपए में सुधार और

कंपनियों के परिणामों के कारण निवेशकों की धारणा प्रभावित हुई। डॉलर के मुकाबले रुपया सोमवार को 11 पैसे की बढ़त के साथ 74.91 पर रहा।

जियोचिफ्ट फाइनेसियल सर्विसेस के शेयर प्रमुख विनोद नायर ने कहा कि निफ्टी अपने बढ़त के रुख पर बरकरार रहा और 11,000 अंक के स्तर को पार कर गया। यह बढ़त कोरोना विषाणु के देश-विदेश में बढ़ते मामलों के बावजूद देखी गई है। कंपनियों की आय सकात्मक रही है, विशेषकर आईटी और बैंकिंग क्षेत्र में, यह दो अन्य प्रमुख कारण हैं जिसने बाजार की दशा तय की। ब्रोकरों के अनुसार कोविड-19 के बढ़ते मामलों ने वैश्विक स्तर पर निवेशकों की धारणा प्रभावित हुई है। इससे एशियाई बाजार भी गिरावट के रुख के साथ बंद हुए। इस बीच ब्रेट कच्चा तेल 0.81 फीसद टूटकर 42.79 डॉलर प्रति बैरल रहा।

# आइएलएंडएफएस ने 57,000 करोड़ के कर्ज निपटान के लिए रूपरेखा पेश की

मुंबई, 20 जुलाई (भाषा)।

नकदी संकट से बूझ रहे इन्फ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेसियल सर्विसेज (आइएलएंडएफएस) समूह ने सोमवार को कहा कि वह 57,000 करोड़ रुपए से अधिक के कर्ज को निपटान की उम्मीद कर रहा है। यह कंपनी के ऊपर कुल 99,000 करोड़ रुपए के कर्ज का 50 फीसद से अधिक है।

समूह इसमें से 50,500 करोड़ रुपए का कर्ज मार्च 2021 तक और 6,600 करोड़ रुपए का ऋण 2020-21 के बाद देने की उम्मीद कर रहा है। हालांकि उसने साफ नहीं किया कि 6,600 करोड़ रुपए का अतिरिक्त कर्ज कब तक लौटाएगा। कर्ज के मतलब के निपटान के बारे में समूह के गैर-कार्यकारी चेयरमैन उदय कोटक ने कहा कि हम चीजों को पारदर्शी तरीके से रख रहे हैं। आज की बात उसी का नतीजा है। हम इस रूपरेखा को लेकर प्रतिक्रित हैं। कंपनी ने 30 जून, 2020

तक 17,640 करोड़ रुपए के कर्ज का निपटान किया है। इस गण का निपटान संपत्ति की बिक्री और समूह के पास उपलब्ध नकदी के जरिए किया गया।

एए निदेश मंडल ने कर्ज लौटाने को लेकर तिमाही योजना साझा की है। इसके तहत 2020-21 की दूसरी तिमाही में 8,800 करोड़ रुपए, तीसरी तिमाही में 18,000 करोड़ रुपए और चौथी तिमाही के अंत में 6,000 करोड़ रुपए का निपटान किया जाएगा। इस तरह चालू वित्त वर्ष के अंत तक कुल 50,500 करोड़ रुपए का निपटान किया जाएगा। इसके अलावा 6,600 करोड़ रुपए का अतिरिक्त कर्ज 2020-21 के बाद किया जाएगा।

समूह ने 13,000 करोड़ रुपए के सकल मूल्य के इनविट (इन्फ्रस्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट) के गठन का प्रस्ताव किया है। इसमें तीन

विशेष उद्देश्यीय कंपनी शामिल हैं जहां 5,000 करोड़ रुपए के कर्ज का पुनर्गठन किया गया है। समूह 15 इकाइयों को बेचने की प्रक्रिया में है। इससे करीब 8,500 करोड़ के कर्ज का समाधान होगा। इसके अलावा 4,900 करोड़ रुपए के अतिरिक्त कर्ज के पुनर्गठन की योजना है।

आइएलएंडएफएस निदेशक मंडल ने समूह के समाधान रूपरेखा को तैयार किया है जिसे राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण ने 12 मार्च, 2020 को मंजूरी दी। सरकार ने अक्टूबर 2018 में कर्ज में डबे हुए कर्ज का निष्पन्न लेकर निदेश मंडल (बोर्ड) को भंग कर कोटक की अगुआई में नए बोर्ड का गठन किया था।

# कृषि श्रमिकों व ग्रामीण मजदूरों के लिए खुदरा मुद्रास्फीति जून में नरम हुई

नई दिल्ली, 20 जुलाई (भाषा)।

कृषि और ग्रामीण श्रमिकों के लिए जून में खुदरा मुद्रास्फीति नरम होकर क्रम से 7.16 और 7 फीसद रही। श्रम मंत्रालय ने कहा कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित कृषि श्रमिकों (सीपीआई-एएल) और ग्रामीण मजदूरों (सीपीआई-आरएल) के लिए मुद्रास्फीति जून में घटकर क्रम से 7.16 और 7 फीसद रही जबकि मई 2020 में यह 8.40 और 8.12 फीसद थी।

बयान के अनुसार केवल खाद्य वस्तुओं के मूल्य सूचकांक पर आधारित सीपीआई-एएल और सीपीआई-आरएल आलोच्य महीने में 8.57 और 8.41 फीसद रही। श्रम मंत्रालय के अनुसार कृषि श्रमिकों और ग्रामीण मजदूरों के लिए खुदरा महंगाई दर में कमी खाद्यों के सस्ता होने की वजह से हुई। इनसे संबंधित खाद्य वर्ग के मूल्य सूचकांक में 1.82 और 1.58 अंक की गिरावट आई। चावल, अरहर दाल, मसूर दाल, मूंगफली तेल, बकरे का मांस, पोल्ट्री, सब्जियाँ और फल समेत अन्य खाद्य के सामान के दाम नीचे आए।

श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने कहा कि मुद्रास्फीति में कमी का मुख्य कारण प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत खाद्यान्न की मुफ्त आपूर्ति है। तक्षित

जनवितरण प्रणाली (टीपीडीएस) के तहत बड़ी संख्या में परिवार इससे लाभान्वित हुए। इसमें कृषि और ग्रामीण श्रमिक शामिल हैं। इससे उनके दैनिक जरूरत के लिए कम बजट की जरूरत पड़ी। सीपीआई-एएल और सीपीआई-आरएल का आंकड़ा श्रम मंत्रालय के अंतर्गत आने वाला श्रम व्यूरो जारी करता है।

श्रम व्यूरो के महानिदेशक डीएस नेमी ने कहा कि मुद्रास्फीति में नरमी कोविड-19 महामारी के बीच कठिन समय में केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा समान के लोगों के साथ मिलकर जरूरी सामानों की आपूर्ति के लिए किए गए प्रयासों को प्रतिबिंबित करता है। आंकड़े के अनुसार सूचकांक में वृद्धि और कमी राज्य दर राज्य अलग-अलग है। कृषि श्रमिकों के मामले में नौ राज्यों में एक से सात अंक की वृद्धि हुई जबकि नौ अन्य राज्यों में एक से 19 अंक की गिरावट आई। दो राज्यों- महिपुर और राजस्थान में यह स्थिर रही। तमिलनाडु के संबंध में 1,214 अंक के साथ यह सूचकांक शीर्ष पर रहा जबकि हिमाचल प्रदेश में यह 78.4 अंक के साथ सबसे निचले पायदान पर रहा। वहीं ग्रामीण श्रमिकों के मामले में नौ राज्यों में एक से आठ अंक की वृद्धि हुई जबकि 10 राज्यों में दो से 20 अंक की गिरावट आई।

# खुदरा व्यापारियों को 15.5 लाख करोड़ के कारोबार का नुकसान

नई दिल्ली, 20 जुलाई (भाषा)।

व्यापारियों के संगठन कैट ने रविवार को कहा कि कोरोना महामारी के कारण भारत के खुदरा व्यापारियों को पिछले छह दिनों में 15.5 लाख करोड़ रुपए के कारोबार का नुकसान हुआ है। कनेक्टइंडिया ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने एक बयान में कहा कि देशभर के व्यापारी उपभोक्ताओं की कमी, कर्मचारियों की गैरहाजिरी के कारण दबाव में है और वित्तीय संकट का सामना कर रहे हैं।

# निम्बस प्रोजेक्ट्स लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: 1001-1006, 10वीं मंजिल, नारायण मंजिल, 23, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली-110001

फोन: 011-42878900, ईमेल: nimbusttd@gmail.com, वेबसाइट: www.nimbusprojectsttd.com CIN: L74899DL1993PLC055470

## 31 मार्च 2020 को समाप्त तिमाही व वर्ष स्टैंडएलोन एवं कन्सोलिडेटेड अंकेक्षित वित्तीय परिणामों के विवरण का सार (₹ लाख में)

विवरण	स्टैंडएलोन		कन्सोलिडेटेड		कन्सोलिडेटेड	
	समाप्त तिमाही 31.03.2020 (अंकेक्षित)	समाप्त तिमाही 31.03.2019 (अंकेक्षित)	समाप्त वर्ष 31.03.2020 (अंकेक्षित)	समाप्त वर्ष 31.03.2019 (अंकेक्षित)	समाप्त तिमाही 31.03.2020 (अंकेक्षित)	समाप्त तिमाही 31.03.2019 (अंकेक्षित)
परिचालनों से कुल आय (शुद्ध)	170.10	61.95	950.75	465.40	170.10	61.95
अवधि का शुद्ध लाभ/(हानि) (कर पूर्व तथा असाधारण मदों के उपरान्त)	2857.29	(-908.40)	1683.41	(-1539.15)	3616.84	(-1526.00)
अवधि का कर के बाद शुद्ध लाभ/(हानि) (असाधारण मदों के उपरान्त)	2862.77	(-899.09)	1594.15	(-1552.56)	3622.33	(-1516.69)
अवधि के लिए कुल व्यापक आय (अवधि के लिए लाभ/(हानि) (कर के बाद) और अन्य व्यापक आय (कर के बाद)	2857.26	(-895.87)	1590.00	(-1549.22)	3616.82	(-1513.47)
समतल अंश पूंजी	743.80	743.80	743.80	743.80	743.80	743.80
कोष (पूर्वमुल्यांकन कोष हटाकर, पूर्व लेखा वर्ष के बैलेंसशीट के अनुसार)	-	-	(-3563.60) (As on 31.03.2020)	(-5178.08) (As on 31.03.2019)	-	-
आय प्रति अंश (अंकेक्षित मूल्य ₹ 10/- प्रत्येक)						
मूलभूत	38.49	(-12.09)	21.43	(-20.87)	48.70	(-20.39)
आयल्यूटिड	38.49	(-12.09)	21.43	(-20.87)	48.70	(-20.39)

**टिप्पणी:** उपरोक्त विवरण सेबी (सूचीबद्धता एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन, 2015 के विनियमन 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंज में दाखिल तिमाही व वार्षिक वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का उद्धरण है। तिमाही व वार्षिक वित्तीय परिणामों का पूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट: [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) तथा कंपनी के वेबसाइट: [www.nimbusprojectsttd.com](http://www.nimbusprojectsttd.com) पर उपलब्ध है।

दिनांक: 20 जुलाई, 2020  
स्थान: नई दिल्ली

# रिता फाइनेंस एंड लीजिंग लिमिटेड

(Formerly known as Rita Holdings Limited)  
Regd. Off.: 324 A, 11th Floor, Aggarwal Plaza, Sector-14, Rohini, New Delhi-110085  
E-mail: ritaholdings@gmail.com, Website: [www.रिताहोल्दिंग्स.इन.टी.ई.](http://www.rिताहोल्दिंग्स.इन.टी.ई.)  
CIN: L67120DL1981PLC011741

## Extracts of the Standalone Un-Audited Financial Results For the Quarter ended June 30, 2020 (₹ in Lakh)

Sl. No.	Particulars	Quarter Ending	Year to date	Corresponding 3 months
		30.06.2020 (Un-Audited)	30.06.2020 (Un-Audited)	ended in the previous year (Un-Audited)
1.	Total income from operations	9.82	9.82	10.61
2.	Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	7.18	7.18	6.09
3.	Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	7.18	7.18	6.09
4.	Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	5.32	5.32	4.52
5.	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after tax))	77.93	77.93	31.35
6.	Equity Share Capital	350.00	350.00	280.00
7.	Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Audited Balance Sheet of previous year)	182.18	182.18	176.50
8.	Earnings Per Share (of ₹ 10/- each) (for continuing and discontinued operations) - 1. Basic 2. Diluted	0.15 0.15	0.15 0.15	0.13 0.13

**Note:**

- The above is an extract of the detailed format of Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Un-Audited Quarterly Financial Results are available on the Website of the Company i.e. ([www.रिताहोल्दिंग्स.इन.टी.ई.](http://www.रिताहोल्दिंग्स.इन.टी.ई.)) and website of the stock Exchange(s) ([www.mse.in](http://www.mse.in)).
- The above result have been reviewed by the audit committee and approved by the Board at their meeting held on 20th July, 2020.
- The Financial result have been prepared in accordance with the Indian Accounting Standards (Ind-AS) as prescribed under section 133 of the Companies Act, 2013 read with Ind-as rules (As amended).

For and on behalf of the Board of Directors of RITA FINANCE AND LEASING LIMITED (Formerly known as Rita Holdings Limited)

Sd/-  
Pawan Kumar Mittal (Director)  
DIN: 00749265

Place: New Delhi  
Date: 20.07.2020

# एपिस इंडिया लिमिटेड

CIN: L51900DL1983PLC160468  
पंजी. कार्यालय: 18/32, ईस्ट फ्लैट नंबर, नई दिल्ली-110008  
द्वारा: 011-42306650 | फॉन: 011-25713631  
ईमेल: [mail@apisindia.com](mailto:mail@apisindia.com)  
वेबसाइट: [www.apisindia.com](http://www.apisindia.com)

## सूचना

संबन्धित सूचित किया जाता है कि सेबी (सूचीबद्धता एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन, 2015 के विनियमन 47 के साथ तैयार विनियमन 29 के अनुसार 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंज में दाखिल तिमाही व वार्षिक वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का उद्धरण है। तिमाही व वार्षिक वित्तीय परिणामों का पूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट: [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) तथा कंपनी के वेबसाइट: [www.apisindia.com](http://www.apisindia.com) पर उपलब्ध है।

द्वारा: नई दिल्ली  
दिनांक: 20.07.2020

# AYUSH FOOD AND HERBS LIMITED

CIN: L01122DL1984PLC018307  
Regd. Off. - G-321, Chirag Delhi, New Delhi- 110017; Ph. - 011-41009092  
Website: [www.ayushfoods.com](http://www.ayushfoods.com); E-mail: [ayushfoodherbs@gmail.com](mailto:ayushfoodherbs@gmail.com)

## Statement of Standalone Audited Financial Results for the quarter and year ended March 31, 2020 (Rs. In Lakhs, unless otherwise stated)

Sl. No.	Particulars	Quarter ended (31.03.2020)	Preceding 3 months ended (31.12.2019)	Corresponding 3 months ended in the previous year (31.03.2019)	Current Year ended (31.03.2020)	Previous Year ended (31.03.2019)
		Audited	Un-Audited	Audited	Audited	Audited
1	Total income from Operations (net)	6,255.07	1,145.11	4,817.43	12,747.63	13,306.77
2	Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	113.31	34.13	21.35	181.92	117.75
3	Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	84.64	10.20	6.23	84.59	82.17
4	Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	84.64	7.55	-8.81	62.60	60.34
5	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after tax)) [Refer Note 3 below]	---	---	---	---	---
6	Equity Share Capital	324.50	324.50	324.50	324.50	324.50
7	Reserves (Excluding Revaluation Reserve as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year)	---	---	---	0.00	251.59
8	Earnings/(Loss) Per Share (not annualised, in Rs.) for continuing and discontinued operations - - Basic - Diluted	2.61 2.61	0.23 0.23	-0.27 -0.27	1.93 1.93	1.86 1.86

**Notes:**

- The above is an extract of the detailed format of Financial Results for the quarter and year ended March 31, 2020 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Financial Results for the quarter and year ended March 31, 2020 are available on the website of the BSE Limited ([www.bseindia.com](http://www.bseindia.com)) and Metropolitan Stock Exchange of India Limited ([www.mse.in](http://www.mse.in)) where the company's shares are listed and shall also be available on the website of the Company ([www.ayushfoods.com](http://www.ayushfoods.com)).
- The above Audited Standalone financial results of the Company for the quarter and year ended March 31, 2020 have been reviewed by Audit Committee of the Board and thereafter approved by the Board of Directors at its adjourned meeting held on July 20, 2020.

By order of the Board  
For Ayush Food and Herbs Ltd.  
Sd/-  
Pallavi Mittal  
Director  
Place: New Delhi  
Date: 20th July, 2020

# Preference plan probe a top priority for Trai

PRESS TRUST OF INDIA  
New Delhi, July 19



On July 17, telecom tribunal TDSAT had stayed Trai's recent order to Vodafone Idea. The order had asked the telco to withhold its offering promising priority 4G network on RedX plan

tribunal against the sector regulator's letter to the company asking it to withhold its plan that promised better speeds to certain priority users.

In fact, Trai had questioned both ViL and Bharti Airtel on whether network preference to specific customers came at the cost of deterioration of services for other non-premium subscribers.

Trai had asked Vodafone Idea how the company is ensuring service quality to non-RedX data users, when the network priority had been promised to RedX customers, especially as telecom networks are reportedly congested in the pandemic scenario. It asked the operator if providing priority to some, not affect the service quality of rest of the network, since no additional capacity is being created.

It had asked after the launch of RedX plan, how would other non-premium customers check or raise concerns on deterioration of service quality, since neither average data speed nor minimum download speed has been committed to a 4G user at present.

At the same time, Telecom Disputes Settlement and Appellate Tribunal (TDSAT) had said that it would be open for regulator Trai to proceed with the inquiry and pass final orders in accordance with law at the earliest after ensuring that requirements of natural justice are satisfied and the Vodafone Idea (ViL) is given opportunity to explain any alleged contravention of regulator's directions.

to finalise its view on the issue in about two weeks. The source said that while much would depend on the extent of data and information that Trai gets from operators like ViL and Bharti Airtel (whose similar plan also came under scrutiny), the regulator would strive to finalise its view at the "earliest possible" timeframe.

Vodafone Idea had last week approached the telecom

# Power demand expected to fall up to 6% in FY21: Icra

PRESS TRUST OF INDIA  
New Delhi, July 20



3.5 - 4.0% in Q2 (second quarter or July-September) and Q3 FY21 and a marginal recovery of about 1.0% in Q4 FY2021, given the slower pace of recovery expected in industrial and commercial activity in the country," it said.

**INDIA'S ELECTRICITY DEMAND** is likely to fall by up to 6% this fiscal due to re-imposition of lockdown restrictions in many parts of the country, ratings agency Icra said on Monday.

According to Icra, all-India power demand in financial year 2019-20 was 1,291 billion units.

Earlier in April, the agency had estimated the fall would be a marginal 1 per cent.

With the re-imposition of lockdown restrictions in many parts across the country, the all-India electricity demand is likely to decline by 5% to 6% in FY21 over FY20, against the earlier estimate of 1% de-growth made in April 2020, Icra said in a report.

It said during the first quarter of FY21, all-India electricity demand declined by 16.2% year-on-year because of the lockdown imposed to control the Covid-19 pandemic.

"...the revised energy demand de-growth estimate assumes demand decline of

# Retail inflation for farm workers, rural labourers eases in June

PRESS TRUST OF INDIA  
New Delhi, July 20

food, with (-) 1.82 points and (-) 1.58 points, respectively, mainly due to fall in prices of rice, arhar dal, masur dal, ground nut oil, meat goat, poultry, vegetables and fruits, among others.

Labour Minister Santosh Gangwar said, "The softening of inflation is mainly due to

free supply of food grains under PM Garib Kalyan Ann Yojana (PMGKAY). This has benefited a large number of households under Targeted Public Distribution System (TPDS) including agricultural and rural labourers thereby putting less burden on their daily budgetary requirement".

**RETAIL INFLATION** for farm and rural workers in June eased to 7.16% and 7%, respectively, as compared to May this year, a labour ministry statement said on Monday.

"Point to point rate of inflation based on the CPI-AL (Consumer Price Index-Agricultural Labourers and CPI-RL (Consumer Price Index for rural labourers) decreased to 7.16% and 7.00% in June 2020 from 8.40% and 8.12%, respectively in May 2020," the ministry said.

According to the statement, inflation based on food index of CPI-AL and CPI-RL stood at (+) 8.57% and (+) 8.41%, respectively, in June 2020.

The All-India CPI-AL and CPI-RL (Base: 1986=87=100) for June 2020 decreased by 1 point each to stand at 1,018 and 1,024 points, respectively, compared to 1,019 and 1,025 in May this year.

The major contribution towards the fall in general index of agricultural labourers and rural labourers came from

# Power minister launches EESL's initiative for clean, green office spaces

PRESS TRUST OF INDIA  
New Delhi, July 20

**UNION POWER MINISTER** R.K. Singh on Monday launched a joint initiative - Retrofit of Air-conditioning to improve indoor air quality for safety and efficiency (RAISE) of state-owned EESL and USAID to ensure cleaner and greener office spaces in the country.

Besides, the minister also unveiled a public electric vehicle charging plaza in the city.

The two initiatives focus on energy efficiency, improving indoor air quality and promoting e-mobility, a power ministry statement said.

Poor air quality has been a concern in India for quite some time and has become more important in light of Covid pandemic. As people return to their offices and public spaces, maintaining good indoor air quality is essential for occupant comfort, well-being, productivity and the overall public health, the statement noted. In that context, the EESL has undertaken a retrofit of its office air-conditioning and ventilation system.

# India seeks better treatment from US on pharma exports

REUTERS  
New Delhi, July 21

largest consumers of dairy products, has offered an opening to US dairy imports through a quota-based system, two of the sources said. These products would need a certificate they are not derived from animals that have consumed feeds that include internal organs, blood meal or tissues of ruminants because of religious sensibilities in India.

India's federal trade ministry did not immediately comment and the US Embassy in New Delhi referred questions to the US Trade Representative.

The two sides have been negotiating a limited trade pact for more than a year aimed at restoring zero tariffs on a range of Indian exports to the US under its Generalised System of Preferences (GSP) that the Trump administration withdrew last year, citing lack of reciprocal access to India's markets.

But the Indian side has proposed a more ambitious deal than just focused on the GSP, a second source said. In

**INDIA IS SEEKING** concessions for generic drugs it exports to the United States in return for opening its dairy markets and slashing tariffs on farm goods as the two sides seek to shore up a new trade deal, three sources said.

India accounts for 40% of US generic drug imports, including the anti-malarial hydroxychloroquine, touted by US President Donald Trump in the fight against the coronavirus.

To win preferential treatment on pharmaceutical exports, the government of Prime Minister Narendra Modi is dangling the carrot of opening its dairy and farm markets to the Trump administration, months ahead of the US presidential election.

"Americans recognise the political compulsion that brings its own benefits," one of the sources with knowledge of the plans said.

India, one of the world's

**METAL COATINGS (INDIA) LIMITED**  
CIN: L74999DL1994PLC063307  
Registered Office: 912, Henrikt Chambers, 89, Nehru Place, New Delhi - 110 019  
Website: www.mcl.india.net | Email: info@mclindia.net | 011-41958125

**NOTICE**  
Pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, notice is hereby given that the meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Wednesday, 29<sup>th</sup> July 2020 at 3:00 p.m. at the Registered Office of the Company *inter alia* to consider and approve the audit fee for the financial year 2020-21 of the Company.

This said notice may be accessed on the Company's website at www.mcl.india.net and may also be accessed on the website of the stock exchange [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com).

For Metal Coatings (India) Limited  
Place: New Delhi  
Date: 20.07.2020  
Pradeep Chandelwal  
Managing Director

**MANGALAM TIMBER PRODUCTS LIMITED**  
CIN: L23201OR1992ZPLC001101  
Regd. Office: Vill. Kusari, P.O. & Dist. Sahasganj  
Email: admin@mangalamt.com | 49168532148143953 | Fax: +91 6852 231842

**NOTICE**  
Notice is hereby given that pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015 that a meeting of the Board of the Directors of the Company will be held on Tuesday, the 28th July, 2020, at Birla Building, 10th floor, 9/1, R. N. Mukherjee Road, Kolkata-700 001, *inter alia*, to consider, approve and take on record the audited Financial Results of the Company for the Quarter and Year Ended 31st March, 2020.

The said information is also available on the Company's website at [www.mangalamt.com](http://www.mangalamt.com) and may also be available on the websites of the Stock Exchanges at [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) and [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com).

For Mangalam Timber Products Limited  
Priya Sharma  
Company Secretary  
Kolkata  
28th July, 2020

**GUJARAT GAS LIMITED**  
Registered Office: Gujarat Gas CNG Station, Sector 5/C, Gandhinagar - 382006, Gujarat Tel: +91-79-26462980  
Fax + 91-79-26466249, website: www.gujaratgas.com  
E-mail id: sandeep.dave@gujaratgas.com  
CIN: L40200GJ2012SGC069118

**NOTICE**  
Pursuant to Regulation 29 (1) read with Regulation 47 (1) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, notice is hereby given that the meeting of the Board of Directors of the Company will be held on **Tuesday, 4<sup>th</sup> August, 2020** to consider and approve the unaudited standalone & consolidated financial results for the quarter ended on 30th June, 2020. The notice of this meeting is also available on the Company's website ([www.gujaratgas.com](http://www.gujaratgas.com)) and also on the Stock Exchanges' web sites of National Stock Exchange of India Limited at ([www.nseindia.com](http://www.nseindia.com)) and BSE Limited at ([www.bseindia.com](http://www.bseindia.com)).

For, Gujarat Gas Limited  
Sd/-  
Sandeep Dave  
Company Secretary

Place: Ahmedabad  
Date: 20<sup>th</sup> July, 2020

Before the Central Government  
Registrar of Companies, NCT of Delhi & Haryana

In the matter of sub-section (3) of Section 13 of Limited Liability Partnership Act, 2008 and rule 17 of the Limited Liability Partnership Rules, 2009

In the matter of the Limited Liability Partnership Act, 2008, Section 13 (3) AND in the matter of CLAIRE (I) ENTERPRISES LLP, having its registered office at B-196, Priyadarshani Vihar, Delhi-110092 (Petitioner)

Notice is hereby given to the General Public that the LLP proposes to make a petition to Registrar of Companies, NCT of Delhi & Haryana under section 13(3) of the Limited Liability Partnership Act, 2008 seeking permission to change its Registered office from the state of "Delhi" to the state of "Uttar Pradesh".

Any person whose interest is likely to be affected by the proposed change of the registered office of the LLP may deliver or cause to be delivered or send by Registered post of his/her objections supported by an affidavit stating the nature of his/her interest and grounds of objection supported by an affidavit to the Registrar of Companies, NCT of Delhi & Haryana, within 21 (twenty one) days from the date of publication of this notice with a copy to the petitioner LLP at its registered office at the address mentioned above.

For and on behalf of CLAIRE (I) ENTERPRISES LLP  
Sd/- Sd/-  
(BHARAT BHUSHAN CHHABRA) (KAVITA CHHABRA)  
(Designated Partner) (Designated Partner)  
D PIN: 00169045 DPIN No.: 00169399  
Address: - B-196 Priyadarshani Vihar, Delhi-110092  
Date:-20.07.2020 Place:- Delhi  
Note:- This advertisement is an Addendum to the original Advertisement dated 24-05-2020

**PUBLIC NOTICE**

This public notice is being issued pursuant to Hon'ble National Company Law Tribunal, Chandigarh Bench, Chandigarh (NCLT) order dated 03.03.2020.

Notice is hereby given that an Application bearing IA 125/2020 was filed by Resolution Professional against the Directors of M/s Hind Inns & Hotels Limited ('Corporate Debtor') under Section 15(2) read with Section 60(5) and 70 of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 in CP (IB) No. 168/Chd/Chd/2018 (CTC Projects Private Limited Vs. Hind Inns & Hotels Limited) for issuance of directions to the personnel of the Corporate Debtor and Statutory Auditor to cooperate in the Corporate Insolvency Resolution Process before the Hon'ble National Company Law Tribunal (NCLT), Chandigarh Bench, Chandigarh.

Notice is hereby given to Rajesh Sharma, R/o House No. 306/2 Sector 38 A, (As per MCA, Sector 38 D), Chandigarh-160036 to attend the proceedings on the next date of hearing scheduled to be held on 05.08.2020 as the copy of notice and application sent through speed post by the Applicant was returned back.

For details refer to link given below-  
<https://nclt.gov.in/interim-order/859131>  
The undersigned can be contacted for any clarification.

Mandeep Gajral  
(Reg. No. IBBP/A-001/IP-00507/2017-2018/10308)  
Resolution Professional  
in the matter of Hind Inns & Hotels Limited  
Email id-[mandeepgajral.ip@gmail.com](mailto:mandeepgajral.ip@gmail.com)  
Mobile: 998142-28280

Date: 21.07.2020  
Place: Chandigarh

# 'India should focus on food security, use rural population in Covid fight'

PRESS TRUST OF INDIA  
Kolkata, July 20

against the viral (coronavirus) spread and like wise a stress on building up food security should be more manageable," said Wolff, professor emeritus at the University of Massachusetts, Amherst faculty.

**A PREDOMINANTLY RURAL** economy like India should use its population in low-density, non-urban areas to prevent the spread of coronavirus and build a more manageable food security system to counter the pandemic-triggered slowdown, says eminent American economist Richard Davis Wolff.

Wolff, who believes climate change, inequality, racism, instability and Covid-19 have converged to make the global economic crisis more acute and long-lasting, said India's anti-pandemic programmes should not just involve funding but also focus on constructing social distancing protocols for rural conditions. "In predominantly rural economies like India, lower (non-urban) population densities should be made to work

The economist was sceptical whether large emergency stimulus packages, including India's ₹20 lakh crore that is equivalent to the 10% of its GDP, would help sustain backward classes and "offset historically accumulated social deficiencies and exclusions".

Head Office: Lokmangal, 1501, Shivajinagar, Pune - 411005  
Tel: 020 25511360  
Email: investor\_services@mahabank.co.in

**Notice**  
Pursuant to Regulation 29 and 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Notice is hereby given that a Meeting of Board of Directors of Bank will be held on 23<sup>rd</sup> July, 2020 at Pune *inter alia*, to consider and approve the Unaudited Standalone and Consolidated Financial Results of Bank for First Quarter ended 30<sup>th</sup> June, 2020.

Notice of Board Meeting is also available on Bank's website i.e. [www.bankofmaharashtra.in](http://www.bankofmaharashtra.in) and website of stock exchanges i.e. [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) and [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com).

For Bank of Maharashtra (Chandrakant Bhagwat) Company Secretary  
Place: Pune  
Date: 20/07/2020

**NIMBUS PROJECTS LIMITED**  
Regd. Office : 1001-1006, 10<sup>th</sup> Floor, Narain Manzil, 23, Barakhamba Road, New Delhi - 110001  
Phone : 011-42878900, Email : [nimbusindia@tdtd.com](mailto:nimbusindia@tdtd.com), Website : [www.nimbusprojects.com](http://www.nimbusprojects.com) CIN : L74899DL1993PLC055470

**Extract of Standalone & Consolidated Audited Financial Results for the Quarter & Year Ended 31st March, 2020** (₹ In Lakh)

PARTICULARS	STANDALONE				CONSOLIDATED			
	Quarter ended 31.03.2020 (Audited)	Quarter ended 31.03.2019 (Audited)	Year Ended 31.03.2020 (Audited)	Year Ended 31.03.2019 (Audited)	Quarter ended 31.03.2020 (Audited)	Quarter ended 31.03.2019 (Audited)	Year Ended 31.03.2020 (Audited)	Year Ended 31.03.2019 (Audited)
Total Income from operations (net)	170.10	61.95	950.75	465.40	170.10	61.95	950.75	465.40
Net Profit/(Loss) for the period (before Tax and after Exceptional Items)	2857.29	(-908.40)	1683.41	(-1539.15)	3616.84	(-1526.00)	2308.22	(-2164.30)
Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional Items)	2862.77	(-899.09)	1594.15	(-1552.56)	3622.33	(-1516.69)	2218.97	(-2177.72)
Total Comprehensive Income for the period (Comprising profit / (Loss) for the period (after Tax) and Other Comprehensive Income (after tax)	2857.26	(-895.87)	1590.00	(-1549.22)	3616.82	(-1513.47)	2214.82	(-2174.38)
Equity Share Capital	743.80	743.80	743.80	743.80	743.80	743.80	743.80	743.80
Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Balance Sheet of previous year)	-	-	(-3563.60 (As on 31.03.2020))	(-5178.08 (As on 31.03.2019))	-	-	(-4067.82 (As on 31.03.2020))	(-6307.12 (As on 31.03.2019))
Earnings Per Share (Face Value Rs. 10/- each)								
Basic:	38.49	(-12.09)	21.43	(-20.87)	48.70	(-20.39)	29.83	(-29.28)
Diluted:	38.49	(-12.09)	21.43	(-20.87)	48.70	(-20.39)	29.83	(-29.28)

**Note:**  
The above is an extract of the detailed format of Quarterly & Yearly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly & Yearly Financial Results are available on the Stock Exchange website, [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) and on the Company's website, [www.nimbusprojects.com](http://www.nimbusprojects.com)

Date : 20<sup>th</sup> July, 2020  
Place : New Delhi  
On behalf of the Board  
For Nimbus Projects Limited  
Sd/-  
BIPIN AGARWAL  
(Managing Director)  
DIN : 00001276

**COLGATE-PALMOLIVE (INDIA) LIMITED**  
Regd. Off: Colgate Research Centre, Main Street, Hiranandani Gardens, Powai, Mumbai 400 076.  
CIN: L24200MH1937PLC002700  
Tel: +91 22 6709 5050; Fax: +91 22 2570 5088  
Email Id: [investors\\_grievance@colpal.com](mailto:investors_grievance@colpal.com)  
Website: [www.colgatepalmolive.co.in](http://www.colgatepalmolive.co.in)

**NOTICE**  
Notice is hereby given that pursuant to Regulation 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, a Meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Wednesday, July 29, 2020, *inter alia*, to consider, approve and take on record the Unaudited Financial Results of the Company for the quarter ended June 30, 2020.

The Notice of the Board Meeting can also be accessed on the Company's website at [www.colgatepalmolive.co.in](http://www.colgatepalmolive.co.in) and may also be accessed on the Stock Exchange websites at [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) and [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com).

For Colgate-Palmolive (India) Limited  
K. Randhir Singh  
Company Secretary & Compliance Officer  
Place: Mumbai  
Date : July 20, 2020

**Norican Group**  
Shaping Industry

**DISA INDIA LIMITED**  
Registered Office: 5<sup>th</sup> Floor, Kushal Garden Arcade, 1A, Peenya Industrial Area Peenya 2<sup>nd</sup> Phase, Bangalore - 560 058. Phone: +91 80 40201403/04  
E-mail: [investor.relations@noricangroup.com](mailto:investor.relations@noricangroup.com)  
[www.disagroup.com](http://www.disagroup.com)  
CIN No: L85110KA1924PLC006116

**NOTICE OF 35<sup>TH</sup> ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE**

The Thirty Fifth (35<sup>th</sup>) Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held through Video Conferencing or Other Audio Visual Means (VC) on Wednesday, August 12, 2020 at 11:00 A.M. IST, in compliance with General Circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) dated April 8, 2020, April 13, 2020 and May 5, 2020 and SEBI Circular dated May 12, 2020 (collectively "Relevant Circulars"). Other applicable provisions of the Companies Act, 2013 (Act) and the Rules made thereunder and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 to transact the business as set out in the Notice dated June 3, 2020. Members attending the AGM through VC facility shall be reckoned for the purpose of quorum as per Section 103 of the Companies Act, 2013.

The Members of the Company are hereby informed that pursuant to Relevant Circulars, the Company has dispatched the Notice of AGM and Annual Report by electronic mode on July 18, 2020 to all the members whose e-mail IDs are registered with the RTA/Depository Participant(s). The aforesaid documents are also available on the Company's website at <https://www.disagroup.com/en-in/investor-relations/disa-india-financial-reports> and on the website of the Stock Exchange i.e., BSE Limited at [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com).

**Procedure for remote e-voting and e-voting during the AGM**

Pursuant to the provisions of Section 108 of the Act read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended from time to time, the Relevant Circulars, the Secretarial Standard on General Meetings issued by the Institute of Company Secretaries of India and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 the Company is providing the facility of remote e-voting to its Members in respect of the business to be transacted at the AGM and for this purpose, it has appointed CDSL to facilitate voting through electronic means.

Members joining the AGM through VC shall be permitted to exercise their right to vote using the e-voting facility at the AGM, provided they have not cast their votes using remote e-voting facility. The members who have cast their votes prior to AGM using the remote e-voting facility may also join the AGM through VC; but shall not be entitled to cast their votes again. The facility of casting votes by a Member using e-voting during the AGM will also be provided by CDSL.

Information and instructions relating to remote e-voting as well as e-voting during the AGM have been provided in the Notice of the AGM. The same login credentials should be used for attending the AGM through VC.

E-voting rights of the members will be reckoned on the Equity Shares held by them either in physical form or in dematerialized form as on **August 4, 2020**. The e-voting period commences from **9 AM IST on August 8, 2020 (Saturday) and ends at 5 PM IST on August 11, 2020 (Tuesday)**. During this period, the Members may cast their vote electronically. The remote e-voting module shall be disabled by CDSL thereafter.

Any person, who acquires shares of the Company and becomes Member of the Company after dispatch of the AGM Notice and holding shares as of the cut-off date i.e., August 4, 2020 may obtain the login ID and password/seek assistance related to e-voting by sending a request to [helpdesk.evoting@cdslindia.com](mailto:helpdesk.evoting@cdslindia.com) or by contacting our RTA, M/s Integrated Registry Management Services Private Limited, 30, Ramana Residency, IV Cross, Sampige Road, Malleswaram, Bengaluru-560 003 (Telephone +91-80-23460815-818, Fax: +91-80-23460819 and e-mail id: [irg@integratedindia.in](mailto:irg@integratedindia.in)).

In case of any queries, the Members may refer "Frequently Asked Questions (FAQs)" and e-voting Manual for Members available at the help section of [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com) or contact [helpdesk.evoting@cdslindia.com](mailto:helpdesk.evoting@cdslindia.com) / CDSL toll free no. 18002005533. In case of any grievances connected with the e-voting please contact Mr. G. Prasanna Bairy, Company Secretary, DISA India Limited, 5<sup>th</sup> Floor, Kushal Garden Arcade, 1A, Peenya Industrial Area, Peenya 2<sup>nd</sup> Phase, Bangalore- 560 058. E-mail id: [investor.relations@noricangroup.com](mailto:investor.relations@noricangroup.com) and Phone No. 080-4020-1400.

The results of remote e-voting and e-voting at the AGM along with the Scrutinizer Report will be placed on the website of the Company ([www.disagroup.com/en-in](http://www.disagroup.com/en-in)) and on the website of CDSL ([www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com)) within 48 Hours of conclusion of the AGM to be held on August 12, 2020 for information of the Members and communicated to the BSE Limited.

**Book Closure**  
Notice pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 read with Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Amendment Rules, 2015 is also hereby given that the Register of Members, Register of Beneficial Owners and Share Transfer Books of the Company will remain closed from August 05, 2020 to August 12, 2020 (both days inclusive) to determine the Shareholders entitled to receive the dividend on the Equity Shares for the financial year ended March 31, 2020, if declared at the AGM.

By Order of the Board of Directors  
For DISA India Limited  
G. Prasanna Bairy  
Company Secretary  
Place: Bangalore  
Date: July 20, 2020